

## Dictation 18.

### Shireen makes an appointment with Chanchal.

**चंचल** - अरे! उधर अच्छा-खासा पार्किंग का इंतजाम है, और तुम मुझे यहाँ छोड़ रही हो!

**शिरीन** - सोमवार को वहाँ ठहरना मना है। अभी उधर पुलिसवाले घूम रहे होंगे। वैसे भी वहाँ से आप पूरब की ओर नहीं मुड़ सकते। इसी लिए कॉजवे पर ही रुकना बेहतर है। मैं तुम्हें शाम को ताज महल होटल से लेने आऊँगी। लॉबी में ही बैठना ताकि हमारा मिलना आसान हो।

**चंचल** - और अगर तुम पाँच बजे तक नहीं आई तो मैं क्या करूँ?

**शिरीन** - तो फिर तुम चर्चगेट की तरफ जाना। मैं तुम्हें उसी के पास ओवल में मिलूँगी। वह बड़ी-सी गोल इमारत दे रही हो न, उन दुकानों के पीछे? उसके सामने का रास्ता चर्चगेट की तरफ जाता है।

**चंचल** - विश्वविद्यालय की ओर?

**शिरीन** - हाँ, पर उसके पहले साइन्स कॉलेज आएगा। उधर मोड़ पर दाहिने घूम जाना। बाईं ओर ओवल दिखेगा। मैं साइरस को वहीं क्रिकेट कैम्प से पिक-अप करूँगी।

**चंचल** - अच्छा? उसे क्रिकेट भी खेलना आता है?

**शिरीन** - हाँ, खेलना तो आता है थोड़ा-बहुत। पर ज्यादातर शैतानी ही करता होगा! अच्छा, फिर शाम के मिलते हैं।

**चंचल** - ठीक है, बाय।

\*\*\*

**Chanchal** - Oh! There are parking arrangements over there, and you are dropping me off here!

**Shireen** - One isn't allowed to stop there on Mondays. Right now there must be policemen over there, [making their rounds]. In any case, you can't turn east from there. That's why it's better to stop on the Causeway. I'll come to fetch you in the evening from the Taj Mahal hotel. Stay ('sit') in the lobby so that it is easy to find each other.

**Chanchal** - And if you don't arrive by five o'clock, then what do I do?

**Shireen** - Then walk towards Churchgate. I will meet you near [Churchgate], at the Oval. You see the big round building behind those shops? The road in front of it goes towards Churchgate.

**Chanchal** - Towards the university?

**Shireen** - Yes, [you will pass] the Science College before that. There, at the turn, go ('turn') right. On your left you will see the Oval. I'll pick up Cyrus right there from [his] cricket camp.

**Chanchal** - Really? Can he play cricket as well?

**Shireen** - Yes, [he] can play a certain amount. But mostly he would be up to mischief ('act devilishly')! OK, let us meet in the evening, then.

**Chanchal** – OK, bye.